



unicef 
for every child



घरेलू हिंसा के कारण **भय, तनाव और चिंता** हो सकती है। यदि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, **भले ही वह आपका प्रिय है**, तो याद रखें इसमें आपकी गलती नहीं है। हिंसा कभी स्वीकार्य नहीं है।



जानकारी और
समर्थन के लिए
यहां कॉल करें

चाइल्डलाइन

1098

राष्ट्रीय

महिला हेल्पलाइन

1091

पुलिस

100